





भुवन पुनरावलोकन पर तीन दिवसीय वेबिनार

(March 15 - 17, May 4 - 6, July 12 - 14, Sept. 28 - 30,
Nov. 9 - 11, 2022)

nrsc

भुवन इसरो का एक जियो-प्लेटफॉर्म है जो 2009 में मल्टी सेंसर, मल्टी प्लेटफॉर्म और मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट इमेजरी को पूरे देश के लिए 56 मी से 1 मी स्थानिक के आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए विमोचित किया गया था। ये स्थानिक मैशअप – नगरीय, पर्यटन, सिंचाई, वानिकी, ई-गवर्नेंस, क्राउड सोर्सिंग, कृषि, एवं विविध घटनाओं के बारे में समयानुरूप सूचनाओं की दिशा में रचना, अभिकल्पना, आदान-प्रदान, विश्लेषण करने के लिए भूस्थानिक आंकड़ा उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में एक मंच प्रदान करता है। इस मंच का उद्देश्य राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर स्थानिक आंकड़ों की मदद से केंद्र / राज्य सरकार के विभागों को राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थानिक डेटा की सहायता से समर्थन देना है। अपने सिद्ध अनुप्रयोगों के साथ भुवन पोर्टल कई नए भू-स्थानिक उपकरण बनाने और संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। भुवन की क्षमता समस्या की स्थिति के अनुकूल होने और उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यकतानुसार वास्तविक समय के समाधान प्रदान करने की क्षमता में है। उच्च विभेदन आंकड़ा अभिकल्पना के अलावा, यह मंच मुफ्त आंकड़े डाउनलोड करने की सेवाएं तथा ओजीसी सेवाओं के रूप में मानचित्र उपलब्ध कराता है। प्रयोक्ताओं की ऐसी किस्में हैं जिन्होंने समाधान के लिए भुवन क्षमताओं का दोहन किया है और इसे कुशलता से उपयोग करना जारी रखते हैं जो भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संदर्भ में भुवन मंच को टिकाऊ बनाता है।

भुवन निकट वास्तविक काल, आपदा के पहले तथा उसके बाद के आंकड़े तथा संबंधित स्थानिक सूचना उपलब्ध कराते हुए आपदा संबंधित सेवाओं को समर्थन उपलब्ध कराता है जो देश में आपदा की घटनाओं के समय सहायक होते हैं। वर्तमान में कोविड-19 की महामारी की स्थिति में भुवन की ओर से कई मोबाइल ऐप्लिकेशन एवं वेब – आधारित सेवाएं/उपयोगिताएं तैयार की हैं जो निर्णयकारों एवं नागरिकों को इस महामारी से लड़ने में सहायता उपलब्ध कराती हैं।



भुवन, एक मंच के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों के सहयोग से ऐप्लिकेशन्स विकसित किये हैं जो विभिन्न डोमेन विशिष्ट अनुप्रयोगों के निर्णय लेने, निगरानी और मूल्यांकन का समर्थन करते हैं। आज तक, इस मंच के माध्यम से, 24 से अधिक मंत्रालयों को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और 30 राज्य पोर्टलों के लिए 182 अनुप्रयोगों का समर्थन किया जाता है।

पाठ्यक्रम:

प्रशिक्षण में भुवन की सभी कार्यप्रणालियों का अवलोकन शामिल है, जैसे आंकड़ा अभिकल्पना, आंकड़ा डाउनलोड, मानचित्र सेवाएँ, क्राउड सोर्सिंग, एपीआई और मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों और आपदा सहायता सेवाओं के लिए किए गए एप्लिकेशन, जिनमें भुवन पोर्टल पर हैंड्स-ऑन एक्सपोज़र शामिल हैं।

पंजीकरण एवं विस्तृत सूचना के लिए कृपया भुवन की वेबसाइट पर पहुंचें www.bhuvan.nrsc.gov.in

कौन आवेदन कर सकता है ?

केंद्रीय / राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त संगठनों, निजी / गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के संकाय से सेवा अधिकारियों में, स्नातक की न्यूनतम डिग्री प्राप्त लोग आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शोध छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे अपने अपेक्षित विवरण प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर अपने आवेदन प्रायोजित करें। भुवन सिंहावलोकन वेबिनार उपयोगकर्ता समुदाय के लिए मुफ्त में पेश किया जाता है।

चयनित उम्मीदवारों को वेबिनार लिंक के साथ ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। आवेदकों को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वेबिनार दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए जो उपस्थिति और प्रश्नोत्तरी और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने से संबंधित हैं।

संपर्क करें

भुवन प्रशिक्षण पर किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए कृपया training@nrsc.gov.in अथवा bhuvan@nrsc.gov.in पर संपर्क करें।